

भीषण तूफान आपदा प्रतिक्रिया

पृष्ठभूमि:

भीषण तूफान आम तौर पर घूमने वाले चक्रवात होते हैं, जिनमें भारी बरसात और 74 मील प्रति घंटा या अधिक गति वाली हवाएँ शामिल होती हैं। भीषण तूफान से भी अचानक बाढ़ आ सकती है, पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली के तार गिर सकते हैं, बिजली गुल हो सकती है और सड़क पर भारी मात्रा में कचरा फैल सकता है। भीषण तूफान का चरम महीना अगस्त और सितंबर होता है; हालांकि, तूफान का मौसम 1 जून से 30 नवंबर तक होता है।

तूफान की भीषणता को समझने के लिए, राष्ट्रीय मौसम सेवा जनता को क्या प्रत्याशित है और क्या पूर्वोपाय किए जाने चाहिए, इसके लिए तूफान संबंधी "चौकसी" या "चेतावनी" जारी कर सकती है। **चौकसी** और **चेतावनी** में अंतर नीचे दर्शाया गया है:

- तूफान की **चौकसी** का अर्थ है 36 घंटों के अंदर तूफान आने की संभावना है।
- तूफान की **चेतावनी** का अर्थ है 24 घंटे या इससे भी कम समय में तूफान आने की उम्मीद है।

तूफान से पहले:

तूफान की तैयारी के लिए, आपको निम्न उपाय करने चाहिए:

- अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की योजना बनाएँ। तूफान की स्थायी खिड़कियाँ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा विकल्प है 5/8" समुद्री प्लाईवुड को काट कर फिट करने और लगाने के लिए तैयारी करते हुए, खिड़कियों पर बोर्ड लगाना। टेप खिड़कियों को टूटने से नहीं रोक सकता है।
- अपनी छत को सुरक्षित फ्रेम संरचना से सुरक्षित रूप से जकड़ने के लिए पट्टियों या अतिरिक्त क्लिप लगाएँ। इससे छत को कम नुकसान पहुँचेगा।
- सुनिश्चित करें कि आपके घर के आस-पास के पेड़ और झाड़ियों की अच्छी तरह से छंटनी की गई है।
- ढीले और भरे हुए बारिश के गटर और नालियों को साफ करें।
- निर्धारित करें कि अपनी नाव को कैसे और कहाँ सुरक्षित रखना है।
- एक सुरक्षित कमरा बनाने पर विचार करें।

तूफान के दौरान:

यदि आपके क्षेत्र में तूफान आने की संभावना है, तो आपको चाहिए कि:

- जानकारी के लिए रेडियो या टीवी सुनें।
- अपने घर को सुरक्षित करें, तूफान के शटर बंद करें, बाहर की वस्तुओं को सुरक्षित करें या उन्हें घर के भीतर ले आएँ।
- यदि जनोपयोगी सेवाओं को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वैसा ही करें। अन्यथा रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टैट को उसकी सबसे ठंडी सेटिंग पर घुमाएँ और उसके दरवाज़े बंद कर दें।
- प्रोपेन टैंक बंद करें। आपात स्थिति को छोड़ कर, फ़ोन का उपयोग करने से बचें।
- यदि समय हो तो अपनी नाव को लंगर से बाँध दें।
- सफ़ाई और टॉयलेट फ़्लश करने जैसे स्वच्छता प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बाथ टब और अन्य बड़े कंटेनरों में पानी भरें।



भीषण तूफान आपदा प्रतिक्रिया

आपको निम्न स्थितियों में जगह खाली करनी चाहिए:

- यदि स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपको ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया हो, तो उनके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- यदि आप किसी गतिशील घर या अस्थायी संरचना में निवास कर रहे हों, तो ज़मीन से अच्छी तरह बाँधे जाने पर भी, इस प्रकार के आश्रय तूफान के दौरान विशेष रूप से खतरनाक होते हैं।
- यदि आप किसी ऊँची इमारत में रहते हैं, तो तूफानी हवाएँ अधिक ऊँचाई पर तीव्र होती हैं।
- यदि आप किसी नदी के पास, या अंतर्देशीय जलमार्ग पर, समुद्र तट या बाढ़ की ज़मीन पर बसे हैं।
- यदि आपको लगता है आप खतरे में हैं।

यदि आप खाली करने में असमर्थ हैं, तो आप सुरक्षित कमरे में जाएँ। यदि आपके पास ऐसा कमरा नहीं है, तो इन दिशानिर्देशों का पालन करें:

- तूफान के दौरान खिड़कियाँ और काँच के दरवाजों से दूर घर के अंदर रहें।
- अंदर के सभी दरवाज़े बंद कर दें - बाहरी दरवाज़े बंद करें और पट्टी या टेक लगाएँ।
- पर्दों और ब्लाइंड्स को बंद रखें। खामोशी का ग़लत अंदाज़ा न लगाएँ; यह तूफान के आने की सूचना हो सकती है - हवा फिर से उठ सकती है।
- निचले तले पर किसी छोटे से आंतरिक कक्ष, कोठरी, या दालान में शरण लें।
- किसी मेज या अन्य मजबूत वस्तु के नीचे फ़र्श पर लेट जाएँ।

तूफान के बाद:

किसी आपदा से उभरना आम तौर पर एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भाँति, सुरक्षा एक प्राथमिक मुद्दा है।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट
निर्माता:
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)

पिछला संशोधन: नवंबर, 2011

